

**SAMPLE PAPER**  
**CLASS-XII**  
**कक्षा- 12वी**  
**ACCOUNTANCY**  
**लेखांकन**

**TIME ALLOWED- 3hours**

**Maximum Marks:60**

Roll no. \_\_\_\_\_

**NOTE:**

- कृपया सुनिश्चित करें कि इस प्रश्न पत्र में 17 पृष्ठ तथा 30 प्रश्न मुद्रित हैं।  
Please make sure that the question paper consists 17 pages and 30 questions printed in it.
- प्रश्न पत्र में दाईं ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र द्वारा उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए।  
The code number on the right side of question paper should be written by the candidate on the front page of the answer sheet.
- किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसका क्रमांक लिखना होगा।  
Before answering a question, must write its serial number.
- एक प्रश्न के सभी भागों को एक साथ हल करें।  
Attempt all parts of a question together.
- अपनी उत्तर पुस्तिका में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।  
Don't leave blank page/pages in your answer book.
- उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कोई शीट नहीं दी जाएगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें व लिखे उत्तर को न काटें।  
Except the answer booklet, no extra sheet will be provided. Write to the point and do not strike the written answer.
- परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write their roll numbers on the question paper.
- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and the complete question paper. No complaint in this regard, will be entertained after examination.

**General Instructions:**

1. This question paper comprises **two** Parts – **A** and **B**. There are **30** questions in the question paper. **All** questions are compulsory.
2. **Part A** is **compulsory** for all candidates.
3. **Part B** has two options i.e. (1) Analysis of Financial Statements and (2) Computerized Accounting. You have to attempt only **one** of the given options.
4. Question nos. **1 to 10 and 23 – 27** are very short answer type questions carrying **1** mark each.
5. Question nos. **11 - 15 and 28** are questions carrying **2** marks each.
6. Question nos. **16 to 20 and 29** are questions carrying **3** marks each.
7. Question nos. **21, 22 and 30** are questions carrying **5** marks each.
8. There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in **2** questions of two marks, **2** questions of three marks and **all** questions of Five marks.

**सामान्य निर्देश:**

1. इस प्रश्न पत्र में दो भाग हैं - ए और बी। प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. भाग ए सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।
3. भाग बी में दो विकल्प हैं अर्थात् (1) वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और (2) कम्प्यूटरीकृत लेखांकन। आपको दिए गए विकल्पों में से केवल एक को हल करना है।
4. प्रश्न संख्या 1 से 10 और 23 से 27 वैकल्पिक प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है।
5. प्रश्न संख्या 11 से 15 और 28 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।
6. प्रश्न संख्या 16 से 20 और 29 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 3 अंकों निर्धारित हैं।
7. प्रश्न संख्या 21, 22 और 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।
8. समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं है। हालाँकि, दो अंकों के 2 प्रश्नों में, तीन अंकों के 2 प्रश्नों में और पाँच अंकों के सभी प्रश्नों में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है।

**Part- A**

**भाग-अ**

**(Accounting for Partnership firms and Companies)**

**(साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए लेखांकन)**

- Q1 Any Change in the Relationship of Existing Partners which results in an end of the existing agreement and enforces making a new agreement is called (1)
- (a) Revaluation of Partnership (c) Reconstitution of Partnership  
(b) Realization Of Partnership (d) None of these

मौजूदा साझेदारों के संबंध में कोई परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा समझौता समाप्त हो जाता है और एक नया समझौता करने के लिए बाध्य करता है, कहलाता है

- (अ) साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन (स) साझेदारी का पुनर्गठन  
(ब) साझेदारी की प्राप्ति (द) इनमें से कोई नहीं

- Q2 What treatment is made to accumulated profit and losses on the retirement of a partner? (1)

- a. Credited to all Partner's capital Account in Old ratio  
b. Debited to all Partner's Capital Account in Old ratio  
c. Credited to remaining Partners Capital accounts in new ratio  
d. Credited to remaining partners capital accounts in gaining ratio

एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर संचित लाभ और हानि के लिए क्या उपचार किया जाता है?

- (अ) सभी साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में क्रेडिट किया गया  
(ब) सभी साझेदारों के पूंजी खाते को पुराने अनुपात में डेबिट किया गया  
(स) शेष साझेदारों के पूंजी खातों में नए अनुपात में जमा किया गया

(द)शेष साझेदारों के पूँजी खाते में अभिलाभ अनुपात में जमा किया गया

Q3 Reserve Capital is a part of: (1)

- (a) Paid-up Capital
- (b) Forfeited share capital
- (c) Capital to be called up only on liquidation of company
- (d) Assets

आरक्षित पूँजी है:

- (अ) प्रदत्त पूँजी का भाग
- (ब) जब्त अंश पूँजी का भाग
- (स) कम्पनी के समापन पर माँगी जाने वाली पूँजी का भाग
- (द) सम्पत्ति का भाग

Q4 The Relation of Partner with the Firm is that of \_\_\_\_\_. (1)

फर्म के साथ साझेदार का संबंध \_\_\_\_\_ का है।

Q5 At the time of dissolution of partnership firm, journal entry for the settlement of loan advanced by the firm to a partner would be: (1)

साझेदारी फर्म के विघटन के समय, फर्म द्वारा साझेदार को दिया गए ऋण के लिए रोजनामचा प्रविष्टि होगी:

a	Bank A/c To Loan to Partner A/c	Dr.
b	Loan to partner A/c To Bank A/c	Dr.
c	Realization A/c To Loan to Partner A/c	Dr.
d	None of these	

अ	Bank A/c To Loan to Partner A/c	Dr.
ब	Loan to partner A/c To Bank A/c	Dr.
स	Realization A/c To Loan to Partner A/c	Dr.

द	None of these
---	---------------

Q6 Give one Circumstance in which Sacrificing Ratio may be applied. (1)

एक परिस्थिति लिखिए जिसमें त्याग अनुपात लागू किया जा सकता है।

Q7 Assertion(A): A Loan from a partner is not transferred to Realisation Account. (1)

Reason (R): A loan from a partner is not an external liability but is discharged before Payment of Capital.

- (a) Assertion (A) and Reason (R ) are correct but Reason (R ) is not the correct explanation of Assertion(A )
- (b) Both Reason (R ) and Assertion (A ) are correct and Reason (R ) is the correct explanation of Assertion (A )
- (c) Only Assertion (A ) is correct
- (d) Both Assertion (A ) and Reason (R ) are not correct.

अभिकथन (A): एक साझेदार से लिया गया ऋण वसूली खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

कारण (R) : एक साझेदार से लिया गया ऋण बाह्य दायित्व नहीं है बल्कि पूँजी की वापसी से पहले चुकाया जाता है।

(अ) (A) और कारण (R) सही हैं लेकिन कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(ब) कारण (R) और अभिकथन (A) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

(स) केवल अभिकथन (A) सही है।

(द) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही नहीं हैं।

Q8 Assertion(A ): Balance at Bank is transferred to Realisation account. (1)

Reason (R ): Balance at Bank is not to be realized but instead distributed in its Present Form

- (a) Assertion (A) and Reason (R ) are correct but Reason (R ) is not the correct explanation

of Assertion(A ).

- (b) Both Reason (R ) and Assertion (A ) are correct and Reason (R ) is the correct explanation of Assertion (A ).
- (c) Only Assertion (A ) is correct.
- (d) Assertion (A ) is not correct but the Reason (R ) is correct.

अभिकथन (A): बैंक में शेष राशि वसूली खाते में स्थानांतरित की जाती है।

कारण (R): बैंक में शेष राशि की वसूली नहीं होनी चाहिए, बल्कि वर्तमान रूप में वितरित किया जाना चाहिए ।

- (अ) अभिकथन (A) और कारण (R) सही हैं लेकिन कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (ब) कारण (R) और अभिकथन (A) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- (स) केवल अभिकथन (A) सही है।
- (द) अभिकथन (A) सही नहीं है लेकिन कारण (R) सही है।

Q9 What is the name given to the 'Part of Capital' of a company which is called up only on winding up ? (1)

पूँजी के उस भाग को क्या नाम दिया गया है, जो केवल कंपनी के समापन पर ही माँगा जाता है ?

Q10 Premium on Redemption of Debentures is \_\_\_\_\_ Account. (1)

ऋणपत्रों के मोचन पर प्रीमियम \_\_\_\_\_ खाता है।

Q11 Give any 2 points of Distinction between Shareholders and Debenture holders. (2)

शेयरधारी और ऋणपत्रधारी के बीच दो अंतर लिखिए ।

Q12 W and S are equal Partners. Their Capital are Rs.40,000 and Rs 80,000 respectively. After the accounts for the year are prepared, it is discovered that Interest on Capital @ 10% is not credited to the capital Accounts before distribution of Profits. Make necessary adjusting Journal entry. (2)

W और S बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूँजी क्रमशः 40000 रुपये और 80000 रुपये हैं। वर्ष के लिए खाते तैयार करने के बाद यह पता चलता है, कि साझेदारी समझौते में प्रदान किए गए 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि, लाभ के वितरण से पहले साझेदारों की पूँजी खाते में जमा नहीं

की गई। अगले वर्ष की शुरुआत में समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय लिया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करे।

**OR अथवा**

Explain any 2 features of Partnership.

साझेदारी की कोई दो विशेषताएं बताइये।

- Q13 A firm's Average Profit is Rs 70,000. It Includes an abnormal Profit of Rs 5,000. Capital invested in the Business is Rs 5,50,000 and the Normal rate of Return is 10%. Calculate Goodwill of the firm at 4 years purchase of Super Profit. (2)

एक फर्म का औसत लाभ ₹70,000 है। इसमें 5,000 रुपये का एक असामान्य लाभ शामिल है। व्यवसाय विनियोजित पूंजी 5,50,000 रुपये है तथा लाभ की सामान्य दर 10% है। अधिलाभ के 4 गुना के बराबर ख्याति की गणना कीजिए।

**OR अथवा**

Explain any four factors of Goodwill.

ख्याति के किन्हीं चार तत्वों का वर्णन कीजिए।

- Q14 A and B are Partners in a firm sharing profit in 3:2 ratio. They admitted C as a new Partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. C brought Rs 1,00,000 for his share of Goodwill. Pass necessary journal entries in the books of new firm for the above transactions. (2)

A और B लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वे C को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं तथा नया लाभ हानि अनुपात 2:1:1 होगा। C अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1,00,000 रुपये लाता है। उपर्युक्त लेनदेन के लिए फर्म के खातों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए।

- Q15 Give any 2 points of distinction between Sacrificing ratio and Gaining Ratio. (2)

त्याग अनुपात और लाभ-प्राप्ति अनुपात के बीच दो अंतर बताइए।

- Q16 From the following information complete Journal entries. (3)

निम्न सूचना के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां पूर्ण कीजिये।

Date	Particulars	L.F	Debit(Rs)	Credit(Rs)
	Share Capital A/c Dr.		?	
	Securities Premium Reserve A/c Dr.		1,000	
	To share forfeiture A/c			?
	To Calls in Arrears A/c			3,500
	(Being ? shares forfeited for non-			



	payment of Rs __?__ including premium 2per share )			
	Bank A/c Share Forfeiture A/c To Share Capital A/c (Being __?__ shares reissued at Rs9 per share as fully paid)	Dr. Dr.	? ?	?
	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being forfeiture money transferred money transferred to capital reserve)	Dr.	600	?

Dr.

Share forfeiture A/c

Cr.

Date	Particulars	Amount	Date	Particulars	Amount
	To share Capital A/c To capital reserve A/c To balance c/d	? 600 600		By Share Capital A/c	1500
		1500			1500

(Face value of share is Rs10 each) (शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर)

Q17 Pass necessary journal entries in the following cases on the dissolution of a partnership firm. (3)

- Realization expenses of Rs.5,000 were to borne by X, a partner. However, it was paid by Y.
- Y's loan of Rs.50,000 settled at Rs. 48,000.
- Machinery (book value Rs.6,00,000) was given to creditor at a discount of 20%.

निम्नलिखित मामलों में एक साझेदारी फर्म के विघटन पर आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

- 5,000 रुपये की वसूली व्यय एक साझेदार X द्वारा वहन किया जाना था। हालाँकि, इसका भुगतान Y द्वारा किया गया था।
- Y का '50,000 रुपये का ऋण' 48,000 रुपये पर तय हुआ।
- को मशीनरी (पुस्तक मूल्य 6,00,000 रुपये) 20% बट्टे पर दी गई।

Q18 Give Journal entries for the Issue of Debentures in the following conditions: (3)

- Issued 2,000 12% Debentures of Rs 100 each at par, Redeemable also at par.



(2) Issued 2,000 12% Debentures at a discount of 2%, redeemable at Par.

(3) Issued 2,000 12% Debentures of Rs 100 each at a Premium of 5%, redeemable at par.

निम्नलिखित स्थितियों में ऋणपत्रों के निर्गमन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए:

(1) 100 रुपये के, 2,000 12% ऋणपत्र जारी किए गए, जो सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।

(2) 2,000 12% ऋणपत्र 2% की छूट पर जारी किए गए, सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।

(3) 5% के प्रीमियम पर 100 रुपये के 2,000 12% ऋणपत्र जारी किए गए, सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।

Q19 X starts a Business on 1<sup>st</sup> January 2002 with Rs 5,000. Y joins on 1<sup>st</sup> May 2002 (3) with Rs 10,000. On 1<sup>st</sup> July, Z joins in as a partner with Rs 15,000 and on the same date X contributes Rs 5,000 and Y Rs 10,000 as further capital. The Profit for the year ended 31<sup>st</sup> December 2002 amounted to Rs 16,000. The Partners agree to share profit in proportion of their capitals. You are asked to show distribution of the profit at the end of accounting year.

X 1 जनवरी 2002 को 5,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। Y, 1 मई 2002 को 10,000 रुपये के साथ शामिल होता है। 1 जुलाई को, Z, 15,000 रुपये के साथ एक साझेदार के रूप में शामिल होता है और उसी तारीख को X 5,000 रुपये और Y 10,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में योगदान देते हैं। 31 दिसंबर 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 16,000 रुपये था। साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ साझा करने के लिए सहमत हैं। आपको लेखा वर्ष के अंत में लाभ का वितरण दिखाने के लिए कहा जाता है।

**OR अथवा**

If the Partner's capital Account is Fixed where will you record the following items:

(1) Drawing made by a Partner

(2) Salary payable to a partner

(3) Share of Profit

(4) Fresh capital Introduced by a Partner

(5) Interest on drawings

(6) Interest on Capital

यदि साझेदार का पूंजी खाता स्थिर है तो आप निम्नलिखित मद को कहाँ दर्ज करेंगे:

(1) साझेदार द्वारा आहरण

(2) साझेदार को देय वेतन

(3) लाभ का हिस्सा

(4) एक साझेदार द्वारा लगाई गई नई पूंजी

(5) आहरण पर ब्याज

(6) पूंजी पर ब्याज

Q20 A,B,C and D are Partners sharing Profits and Losses in the ratio 1:2:3:4. D (3)

retired and his share was acquired by A and B equally. Goodwill was valued at 3 years purchase of average profits of last 4 years which were Rs 40,000.

General reserve showed a balance of Rs 1,30,000 and D's capital in the Balance Sheet was Rs 3,00,000 at the time of retirement. You are required to record necessary journal entries in the books of the firm.

A B C और D लाभ को 1:2:3:4 के अनुपात में साझा करने वाले साझेदार हैं। D सेवानिवृत्त हो गया है और उसका हिस्सा A और B द्वारा बराबर बांटा गया है। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ की 3 साल की खरीद पर किया गया था, जोकि 4000 रुपए था। सामान्य रिजर्व में 130000 रुपए का शेष दिखाया गया था और स्थिति विवरण में D की पूंजी सेवानिवृत्ति के समय 300000 रुपए थी फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए।

Q21 Sunaina and Tamanna are partners in a firm sharing profits and losses in the (5)  
ratio of 3:2. Their Balance Sheet as at 5<sup>th</sup> March, 2020 stood as follows:

सुनैना और तमन्ना एक फर्म में साझेदार हैं और 3: 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं 5 मार्च, 2020 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी:

Balance Sheet

Liabilities देयताएं	Amount Rs.	Assets सम्पत्तियां	Amount Rs.
Capital Accounts:		Plant & Machinery	
पूँजी खाता		प्लांट और मशीन	1,20,000
Sunaina सुनैना 60,000		Land and Building	1,40,000
Tamanna तमन्ना 80000	1,40,000	भूमि और भवन	
Current Accounts:		Debtors देनदार 1,90,000	
चालू खाता:		Less: Provision for Doubtful debts	
Sunaina सुनैना 10,000		सन्धिगत ऋणों के लिए प्रावधान (40,000)	1,50,000
Tamanna तमन्ना 30,000	40000	Stock स्टॉक	40,000
General Reserve	1,20,000	Cash	30,000
सामान्य कोष		रोकड़	
Workmen's Compensation Reserve	50000	Goodwill	20,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष		ख्याति	
Creditors लेनदार	150000		

	5,00,000	5,00,000

They agreed to admit Pranav into partnership for 1/5th share of profits on 1st April, 2020, on the following terms:

- All Debtors are good.
  - Value of land and building to be increased to Rs.1,80,000.
  - Value of plant and machinery to be reduced by Rs.20,000.
  - The liability against Workmen's Compensation Fund is determined at Rs.20,000 which is to be paid later in the year.
  - Pranav to bring in capital of Rs.1,00,000 and Rs.10,000 as premium for goodwill in cash.
- Prepare Revaluation Account, Capital Accounts and Balance Sheet of the Reconstituted Firm.

वे 1 अप्रैल, 2020 को प्रणव को मुनाफे के 1/5वें हिस्से के लिए निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में शामिल करने के लिए सहमत हुए:

- सभी देनदार अच्छे हैं।
- भूमि और भवन का मूल्य ₹1,80,000 तक बढ़ाया जा है।
- संयंत्र और मशीनरी का मूल्य ₹20,000 कम किया जाना है।
- कामगार मुआवजा निधि के खिलाफ देयता ₹20,000 पर निर्धारित की जाती है जिसे बाद में वर्ष में भुगतान किया जाना है।
- प्रणव ₹1,00,000 की पूँजी और ₹10,000 प्रीमियम के रूप में ख्याति के लिए नकद में लाएगा।  
पुनर्मूल्यांकन खाता, पूँजी खाते तथा पुनर्गठित फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए।

**OR अथवा**

What are the reasons for need of a new Partner in a Business? Explain the Accounting treatment of Goodwill when the new partner brings his share of Goodwill in Cash.

व्यवसाय में नए साझेदार की आवश्यकता के क्या कारण हैं? जब

नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है तो ख्याति के लेखांकन उपचार की व्याख्या कीजिए।

Q22 Zocon Ltd. issued a prospectus inviting applications for 5,00,000 equity shares of Rs10 each issued at a premium of 10% payable as: (5)

Rs3 on Application

Rs5 on Allotment (including premium) and Rs3 on call.

Applications were received for 6,60,000 shares.

Allotment was made as follows:

- (a) Applicants of 4,00,000 shares were allotted in full.
- (b) Applicants of 2,00,000 shares were allotted 50% on pro rata basis.
- (c) Applicants of 60,000 shares were issued letters of regret.

A shareholder to whom 500 shares were allotted under category (a) paid full amount on shares allotted to him along with allotment money. Another shareholder to whom 1,000 shares were allotted under category (b) failed to pay the amount due on allotment. His shares were immediately forfeited. These shares were then reissued at Rs14 per share as Rs7 paid up. Call has not yet been made. Journalise.

ज़ोकन लिमिटेड ने एक प्रविवरण पत्र जारी किया जिसमें प्रत्येक 10 रुपये के 5,00,000 समता शेयरों के लिए 10% के प्रीमियम पर जारी किए गए आवेदन आमंत्रित किए गए:

₹3 आवेदन पर

आवंटन पर ₹5 (प्रीमियम सहित) और ₹3 कॉल पर।

6,60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए।

आवंटन इस प्रकार किया गया था:

(अ) 4,00,000 शेयरों के आवेदकों को पूर्ण रूप से आवंटित किया गया था।

(ब) 2,00,000 शेयरों के आवेदकों को आनुपातिक आधार पर 50% आवंटित किया गया था।

(स) 60,000 शेयरों के आवेदकों को खेद के पत्र जारी किए गए थे। एक शेयरधारक जिसे श्रेणी (अ) के तहत 500 शेयर आवंटित किए गए थे, उसने आवंटन राशि के साथ आवंटित शेयरों पर पूरी राशि का भुगतान किया गया। एक अन्य शेयरधारक, जिसे 1,000 शेयर श्रेणी (ब) के तहत आवंटित किए गए थे, आवंटन पर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। उनके शेयरों को तुरंत जब्त कर लिया गया। इन शेयरों को तब ₹14 प्रति शेयर पर ₹7 के भुगतान के रूप में फिर से जारी किया गया था। कॉल अभी तक नहीं माँगी गई है। जर्नल प्रविष्टियां करें।

**OR अथवा**

Write Short Notes on the Following:

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे

- (1) Calls-in-Advance अग्रिम याचना
- (2) Calls-in -Arrears बकाया याचना

**Part – B**

**भाग-ब**

**(Analysis of Financial statements)**

**वित्तीय विवरणों का विश्लेषण**

Q23 Name any 2 Items that can be disclosed under 'Short Term Provisions'. (1)  
किन्हीं 2 मदों के नाम बताएं जिनको 'अल्पकालिक प्रावधान' के तहत दर्शाया जा सकता है।

Q24 Which of the following is not a part of Finance Cost (in statement of profit and loss)? (1)  
(a) Bank Charges (b) Interest Paid on Debentures  
(c) Interest Paid on Public Deposits (d) Loss on Issue of Debentures

निम्नलिखित में से कौन सा वित्त लागत का हिस्सा नहीं है (लाभ हानि विवरण में)?  
(अ) बैंक शुल्क। (ब) ऋणपत्र पर ब्याज का भुगतान  
(स) सार्वजनिक जमा पर ब्याज भुगतान (द) ऋणपत्र जारी करने पर नुकसान

Q25 Cash Flow Statement is Prepared for financial Planning of \_\_\_\_\_ range. (1)  
रोकड़ प्रवाह विवरण \_\_\_\_\_ वित्तीय योजना के लिए तैयार किया जाता है।

Q26 Assertion(A): Activity Ratios are the ratios that are calculated for measuring the efficiency of operations of business based on effective utilisation of resources. (1)

Reason (R): Current Ratios and Quick ratios are liquidity ratios.

(a) Assertion (A) and Reason (R ) are correct but Reason (R ) is not the correct explanation of Assertion(A )

(b) Both Reason (R ) and Assertion (A ) are correct and Reason (R ) is the correct explanation of Assertion (A )

(c ) Only Assertion (A ) is correct

( d ) Both Assertion (A ) and Reason (R ) are not correct.

Q26 अभिकथन (A): गतिविधि अनुपात वे अनुपात हैं जिनकी गणना संसाधनों के प्रभावी उपयोग के आधार पर व्यवसाय के संचालन की दक्षता को मापने के लिए की जाती है। (1)

कारण (R): वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात तरलता अनुपात हैं। .

(ए) अभिकथन (A) और कारण (R) सही हैं लेकिन कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(बी) कारण (R) और अभिकथन (A) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है

(सी) केवल अभिकथन (A) सही है

(डी) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही नहीं हैं।

Q27 The \_\_\_\_\_ may indicate that the firm is experiencing stock outs and lost sales. (1)

- (a) Average payment period
- (b) Inventory turnover ratio
- (c) Average collection period
- (d) Quick ratio

\_\_\_\_\_ संकेत दे सकता है कि फर्म स्टॉक अनुपलब्धता और खोई हुई बिक्री का अनुभव कर रही है।

- (अ) औसत भुगतान अवधि
- (ब) स्टॉक आवर्त अनुपात
- (स) औसत संग्रह अवधि
- (द) तरल अनुपात

Q28 Under what Headings will you show the following items in the Balance Sheet of the Company? (2)

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| (1) Balance with Banks | (2) Investment In debentures |
| (3) Outstanding salary | (4) Authorised Capital       |

एक कंपनी के तुलन-पत्र में निम्नलिखित मदों को आप किन शीर्षकों के अंतर्गत दिखायेंगे ?

(1) बैंकों के पास शेष राशि (2) ऋणपत्र में निवेश

(3) बकाया वेतन

(4) अधिकृत पूंजी

Q29 Calculate proprietary ratio, if Total assets to Debt ratio is 2:1. Debt is Rs.5,00,000. Equity shares capital is 0.5 times of debt. Preference Shares capital is 25% of equity share capital. Net profit before tax is Rs.10,00,000 and rate of tax is 40%. (3)

स्वामित्व अनुपात की गणना करें, यदि कुल संपत्ति का ऋण अनुपात 2:1 है। ऋण 5,00,000 रुपये है।

समता अंश, पूंजी ऋण का 0.5 गुना है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी इक्विटी का 25% है।  
कर पूर्व शुद्ध लाभ 10,00,000 रुपये है और कर की दर 40% है।

**OR अथवा**

What is Ratio? Explain any 2 utilities of Ratio Analysis.

अनुपात क्या है? अनुपात विश्लेषण की कोई दो उपयोगिता बताएं।

Q30 From the following particulars, Prepare Cash Flows from Investing activities: (5)

निम्न विवरण से, रोकड़ प्रवाह विवरण की निवेश गतिविधि बनाएं

	Purchased	Sold
Building भवन	4,00,000	2,00,000
NON-Current Investment	2,00,000	3,00,000
गैर चालू निवेश		
Goodwill ख्याति	1,00,000	_____
Trade Marks व्यापारिक चिन्ह _____		1,50,000

Interest Received on Debentures held as Investment Rs 10,000. Dividend Received on Shares Rs 5,000. A Plot of Land was purchased out of Surplus Funds for Investment purposes and was let out for commercial purposes and Rent received Rs 20,000.

10,000 रुपये के निवेश के रूप में रखे गए ऋणपत्र पर प्राप्त ब्याज। शेयरों पर प्राप्त लाभांश ₹ 5,000। अधिशेष निधि में से निवेश के उद्देश्य से भूमि का एक भूखण्ड क्रय किया गया तथा व्यवसायिक उद्देश्य हेतु किराये पर दिया गया तथा 20,000 रुपये का किराया प्राप्त हुआ।

**OR अथवा**

What is the Cash Flow Statement? State any 4 objectives of preparing Cash flow Statement.



रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के कोई चार उद्देश्य बताइए।

**Part – B**  
**(Computerised Accounting)**

Q23 Name any two components of computerized accounting system . (1)

कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए ।

Q24 Computerised Accounting system takes (i)\_\_\_as inputs which are processed through (ii) \_\_\_\_\_to generate reports. (1)

कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली \_\_\_\_\_ को इनपुट के रूप में लेती है जिसे संसाधित किया जाता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए \_\_\_\_\_ के माध्यम से।

Q25 The data is classified for creating groups of accounts in the heads of : (1)

- (A) Assets, Liabilities and Capital
- (B) Assets, Owners' equity, Revenue and Expenses
- (C) Assets, Capital, Liabilities, Revenue and Expenses
- (D) Capital, Revenue and Expenses

खातों के समूह बनाने के लिए डेटा को निम्नलिखित के शीर्ष में वर्गीकृत किया गया है:

- (अ) संपत्ति, देनदारियों और पूंजी
- (ब) संपत्ति, मालिकों की इक्विटी, राजस्व और व्यय
- (स) संपत्ति, पूंजी, देनदारियों, राजस्व और व्यय
- (द) पूंजी, राजस्व और व्यय

Q26 A1 : E2 in Excel refers to : (1)

- (A) Column on Excel sheet
- (B) Row on Excel sheet
- (C) Column between start and end points of Excel sheet
- (D) Alphabets between A to E on Excel sheet.

A1 : एक्सेल में E2 संदर्भित करता है :

- (ए) एक्सेल शीट पर कॉलम
- (बी) एक्सेल शीट पर पंक्ति
- (सी) एक्सेल शीट के प्रारंभ और अंत बिंदुओं के बीच कॉलम
- (डी) एक्सेल शीट पर ए से ई के बीच अक्षर।

Q27 Which of the following is not a limitation of Computerised Accounting system? (1)

- (A) Data may be lost or corrupted due to power interruptions.
- (B) Data is prone to hacking.
- (C) Data is not made available to everybody.
- (D) Unprogrammed and un-specified reports cannot be generated

निम्नलिखित में से कौन कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की सीमा नहीं है? (1)

- (अ) बिजली की रुकावट के कारण डेटा खो या दूषित हो सकता है।
- (ब) डेटा हैकिंग के लिए प्रवण है।
- (स) डेटा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
- (द) अनियोजित और अनिर्दिष्ट रिपोर्ट उत्पन्न नहीं की जा सकतीं

Q28 Explain 'Sequential' and 'Mnemonic' codes. (2)

'अनुक्रमिक' और 'मेमनोनिक' कोडों की व्याख्या करें।

Q29 What is meant by a graph? Explain any of its 2 advantages. (3)

ग्राफ से क्या तात्पर्य है? इसके किन्हीं 2 लाभों की व्याख्या कीजिए।

**OR अथवा**

Explain any three types of vouchers used for entry in Tally software with the help of examples.

टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री के लिए प्रयोग होने वाले किन्हीं तीन प्रकार के वाउचरों की उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए ।

Q30 Identify the error that appears when there are invalid numeric values in a formula or function. How can this error be rectified? Explain. (5)

किसी सूत्र या फ़ंक्शन में अमान्य संख्यात्मक मान होने पर दिखाई देने वाली त्रुटि को पहचानें। इस त्रुटि को कैसे सुधारा जा सकता है? व्याख्या करना।

**OR अथवा**

Give an example of payroll template using spreadsheet taking imaginary figures.

काल्पनिक आंकड़े लेने वाली स्प्रेडशीट का उपयोग करते हुए पेरॉल टेम्पलेट का उदाहरण दें।